



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, अप्रैल 26, 2015—मई 2, 2015, शनिवार/वैशाख 6—वैशाख 12, 1937
No. 6] NEW DELHI, APRIL 26, 2015—MAY 2, 2015, SATURDAY/VAISAKHA 6—VAISAKHA 12, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

का.नि.आ. 15.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रिमाउन्ट और पशु चिकित्सा कोर (वर्ग 4 गैर औद्योगिक -इतर पद) भर्ती नियम, 1972 को जहां तक उसका संबंध फार्म मुन्शी, मस्टर लिखने वाला, कोच मैन, फार्म जमादार, लाइन जमादार, मुख्य पशु ड्रेसर, पशु ड्रेसर, वेमैन के पदों से है और रिमाउन्ट और पशु चिकित्सा कोर (वर्ग 4 औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1972 को जहां तक उसका संबंध बेलदार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रिमाउन्ट और पशु चिकित्सा कोर में समूह 'ग' गैर-औद्योगिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रिमाउन्ट और पशु चिकित्सा कोर में (समूह 'ग' गैर औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. फार्म मुंशी	04* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (गैर औद्योगिक)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
---	--	-------------------------------

(7)	(8)	(9)
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास । 2. व्यवसाय कार्य में प्रवीणता	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(10)	(11)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आमेलन : रक्षा सेवाओं के निचले संगठनों में समरूप श्रेणी में सेवा कर रहे व्यक्तियों ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

(12)	(13)
------	------

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता ।

- (1) मेजर जनरल,
रिमाउन्ट पशु चिकित्सा कोर रिकार्ड का भारसाधक,
मेरठ कैन्टोमेंट —अध्यक्ष
- (2) रिमाउन्ट पशु चिकित्सा सेवा का महानिदेशालय का
कर्नल रैंक का एक अधिकारी —सदस्य
- (3) असंबद्ध विभाग से ले. कर्नल या मेजर या कैप्टन या
समतुल्य रैंक का एक अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मस्टर लेखक	02* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (गैर औद्योगिक)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों

(6)

से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)

(8)

(9)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)

(11)

आमेसन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

आमेसन : रक्षा सेवाओं के निचले संगठनों में समरूप श्रेणी में सेवा कर रहे व्यक्तियों।

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता।

(1) मेजर जनरल,

रिमाउन्ट पशु चिकित्सा कोर रिकार्ड का भारसाधक,
मेरठ कैन्टॉमेंट

—अध्यक्ष

(2) रिमाउन्ट पशु चिकित्सा सेवा का महानिदेशालय का

कर्नल रैंक का एक अधिकारी

—सदस्य

(3) असंबद्ध विभाग से ले. कर्नल या मेजर या कैप्टन या

समतुल्य रैंक का एक अधिकारी

—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कोचमैन	02* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (गैर औद्योगिक)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मेजर जनरल, रिमाउन्ट पशु चिकित्सा कोर रिकार्ड का भारसाधक, मेरठ कैन्टोमेंट —अध्यक्ष 2. रिमाउन्ट पशु चिकित्सा सेवा का महानिदेशालय का कर्नल रैंक का एक अधिकारी —सदस्य 3. असंबद्ध विभाग से ले. कर्नल या मेजर या कैप्टन या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी —सदस्य 	<p>लागू नहीं होता ।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. फार्म जमादार	38* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (गैर औद्योगिक)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(7)			(8)	(9)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
(10)			(11)		
प्रोन्नति द्वारा ।			ऐसे बेलदार जिनकी श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है ।		
			<p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>		
(12)			(13)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-			लागू नहीं होता ।		
(1) मेजर जनरल, रिमाउन्ट पशु चिकित्सा कोर रिकार्ड का भारसाधक, मेरठ कैन्टोंमेंट			—अध्यक्ष		
(2) रिमाउन्ट पशु चिकित्सा सेवा का महानिदेशालय का कर्नल रैंक का एक अधिकारी			—सदस्य		
(3) असंबद्ध विभाग से ले. कर्नल या मेजर या कैप्टन या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी			—सदस्य		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. लाइन जमादार	56* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (गैर औद्योगिक)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(7)			(8)	(9)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
(10)			(11)		
प्रोन्नति द्वारा			ऐसे साइस जिनकी श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।		
(12)			(13)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-			लागू नहीं होता ।		
(1) मेजर जनरल, रिमाउन्ट पशु चिकित्सा कोर रिकार्ड का भारसाधक, मेरठ कैन्टोंमेंट			—अध्यक्ष		
(2) रिमाउन्ट पशु चिकित्सा सेवा का महानिदेशालय का कर्नल रैंक का एक अधिकारी			—सदस्य		
(3) असंबद्ध विभाग से ले. कर्नल या मेजर या कैप्टन या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी			—सदस्य		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. मुख्य पशु ड्रेसर	02* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (गैर औद्योगिक)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(7)			(8)	(9)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
(10)			(11)		
प्रोन्नति द्वारा			पशु चिकित्सा ड्रेसर जिनकी श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		
(12)			(13)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-			लागू नहीं होता ।		
(1) मेजर जनरल, रिमाउन्ट पशु चिकित्सा कोर रिकार्ड का भारसाधक, मेरठ कैन्टोंमेंट —अध्यक्ष					
(2) रिमाउन्ट पशु चिकित्सा सेवा का महानिदेशालय का कर्नल रैंक का एक अधिकारी —सदस्य					
(3) असंबद्ध विभाग से ले. कर्नल या मेजर या कैप्टन या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी —सदस्य					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. पशु ड्रेसर	46* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (गैर औद्योगिक)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)					
(7)			(8)	(9)	
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास ।			लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले	
2. किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा संस्थान से पशु चिकित्सा ड्रेसर का एक वर्ष का सर्टिफिकेट प्राप्त ।				व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	
(10)			(11)		
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा			आमेलन : रक्षा सेवाओं के निचले संगठनों में समरूप श्रेणी में सेवा कर रहे व्यक्तियों		
(12)			(13)		
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-				लागू नहीं होता ।	
(1) मेजर जनरल, रिमाउन्ट पशु चिकित्सा कोर रिकार्ड का भारसाधक, मेरठ कैन्टोमेंट				—अध्यक्ष	
(2) रिमाउन्ट पशु चिकित्सा सेवा का महानिदेशालय का कर्नल रैंक का एक अधिकारी				—सदस्य	
(3) असंबद्ध विभाग से ले. कर्नल या मेजर या कैप्टन या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी				—सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. वेमैन	10* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (गैर औद्योगिक)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
(7)			(8)	(9)	
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास 2. व्यवसाय कार्य में प्रवीणता			लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	
(10)			(11)		
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा			आमेलन : रक्षा सेवाओं के निचले संगठनों में समरूप श्रेणी में सेवा कर रहे व्यक्तियों		
(12)			(13)		
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-				लागू नहीं होता ।	
(1) मेजर जनरल, रिमाउन्ट पशु चिकित्सा कोर रिकार्ड का भारसाधक, मेरठ कैंटोंन्मेंट —अध्यक्ष					
(2) रिमाउन्ट पशु चिकित्सा सेवा का महानिदेशालय का कर्नल रैंक का एक अधिकारी —सदस्य					
(3) असंबद्ध विभाग से ले. कर्नल या मेजर या कैप्टन या समतुल्य रैंक का एक अधिकारी —सदस्य					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. बेलदार	152* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (गैर औद्योगिक)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
					</

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd April, 2015

S.R.O. 15.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Remount and Veterinary Corps (Class IV Non-Industrial posts) Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to the posts of Farm Munshi, Muster Writer, Coachman, Farm Jemadar, Line Jemadar, Head Vet Dresser, Vet Dresser, Weighman and the Remount and Veterinary Corps (Class IV Industrial posts) Recruitment Rules, 1972 in so far they relate to the post of Beldar, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Non-Industrial posts in the Remount and Veterinary Corps in the Ministry of Defence, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Remount and Veterinary Corps (Group 'C' Non-Industrial posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .— The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to . the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Farm Munshi	04* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. (Non-Industrial)	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 with grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 40 years for departmental candidates in accordance with the orders issued by the Central Government).

(6)

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
1. Matric pass from a recognised Board.	Not applicable	Two years for direct recruits
2. Proficiency in trade work		
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(10)	(11)	
By absorption failing which by direct recruitment	Absorption : Persons serving in similar grade in low formations of Defence Services.	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
(12)	(13)	
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :	Not applicable .	
(1) Major General, Officer-in-Charge, Remount Veterinary Corps Records, Meerut Cantonment—Chairman		
(2) An officer of the rank of Colonel from Directorate General Remount Veterinary Services —Member		
(3) An officer of the rank of Lt. Colonel or Major or Captain or equivalent rank from an unconnected Department —Member		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Muster Writer	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. (Non-Industrial)	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 with grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 40 years for departmental candidates in accordance with the orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
(7)			(8)	(9)	
1. Matric pass from a recognised Board			Not applicable	Two years for direct recruits	
(10)			(11)		
By absorption failing which by direct recruitment			Absorption : Persons serving in similar grade in lower formations of Defence Services.		
(12)			(13)		
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :				Not applicable.	
(1) Major General, Officer-in-Charge, Remount Veterinary Corps Records, Meerut Cantonment—Chairman					
(2) An officer of the rank of Colonel from Directorate General Remount Veterinary Services —Member					
(3) An officer of the rank of Lt. Colonel or Major or Captain or equivalent rank from an unconnected Department —Member					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Coachman	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. (Non-Industrial)	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 with grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 40 years for departmental candidates in accordance with the orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
1. Matric pass from a recognised Board. 2. Proficiency in trade work.	Not applicable	Two years for direct recruits

(10)	(11)
By direct recruitment.	Not applicable

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with three years regular service in posts in the Pay band-1, grade pay of 1800 ; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(12)			(13)		
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :			Not applicable		
(1) Major General, Officer-in-Charge, Remount Veterinary Corps Records, Meerut Cantonment—Chairman					
(2) An officer of the rank of Colonel from Directorate General Remount Veterinary Services —Member					
(3) An officer of the rank of Lt. Colonel or Major or Captain or equivalent rank from an unconnected Department —Member					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Farm Jemadar	38* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. (Non-Industrial)	Pay Band-1, Rs. 5200– 20200 with grade pay of Rs. 1900	Not applicable	Not applicable
(7)			(8)		
Not applicable			Not applicable		
(10)			(11)		
By Promotion			Beldar with three years regular service in the grade.		
			<p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding payor pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p>		

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :	Not applicable.
(1) Major General, Officer-in-Charge, Remount Veterinary Corps records, Meerut Cantonment—Chairman	
(2) An officer of the rank of Colonel from Directorate General Remount Veterinary Services —Member	
(3) An officer of the rank of Lt. Colonel or Major or Captain or equivalent rank from an unconnected Department —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Line Jemadar	56* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. (Non-Industrial)	Pay Band-1, Rs. 5200– 20200 with grade pay of Rs. 1900/-	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
------	------

By Promotion

Syce with three years regular service in the grade.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding payor pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

(12)	(13)
Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—	Not applicable .
(1) Major General, Officer-in-Charge, Remount Veterinary Corps records, Meerut Cantonment —Chairman	
(2) An officer of the rank of Colonel from Directorate General Remount Veterinary Services —Member	
(3) An officer of the rank of Lt. Colonel or Major or Captain or equivalent rank from an unconnected Department —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Head Veterinary Dresser	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Non-Industrial)	Pay Band-1, Rs. 5200– 20200 with grade pay of Rs. 1900	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By Promotion	<p>Veterinary Dresser with three years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p>

(12)			(13)		
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :			Not applicable.		
(1) Major General, Officer-in-Charge, Remount Veterinary Corps records, Meerut Cantonment —Chairman					
(2) An officer of the rank of Colonel from Directorate General Remount Veterinary Services —Member					
(3) An officer of the rank of Lt. Colonel or Major or Captain or equivalent rank from an unconnected Department —Member					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Veterinary Dresser	46* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Non-Industrial)	Pay Band-1, Rs. 5200– 20200 with grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 40 years for departmental candidates in accordance with the orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
(7)			(8)	(9)	
1. Matric pass from a recognised Board.			Not applicable	Two years for direct recruits	
2. One year Veterinary Dresser course certificate from a recognised Veterinary Institute					
(10)			(11)		
By absorption, failing which by direct recruitment			Absorption- Persons serving in similar in lower formations of Defence Services.		

(12)				(13)	
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—				Not applicable.	
(1) Major General, Officer-in-Charge, Remount Veterinary Corps Records, Meerut Cantonment				—Chairman	
(2) An officer of the rank of Colonel from Directorate General Remount Veterinary Services				—Member	
(3) An officer of the rank of Lt. Colonel or Major or Captain or equivalent rank from an unconnected Department				—Member	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Weighman	10* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Non-Industrial)	Pay Band-1, Rs. 5200– 20200 with grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 40 years for departmental candidates in accordance with the orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
(7)			(8)		(9)
1. Matric pass from a recognised Board 2. Proficiency in trade work			Not applicable		Two years for direct recruits
(10)				(11)	
By absorption, failing which by direct recruitment				Absorption- Persons serving in similar or higher grade in lower formations of Defence Services.	

(12)			(13)		
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—			Not applicable .		
(1) Major General, Officer-in-Charge, Remount Veterinary Corps Records, Meerut Cantonment			—Chairman		
(2) An officer of the rank of Colonel from Directorate General Remount Veterinary Services			—Member		
(3) An officer of the rank of Lt. Colonel or Major or Captain or equivalent rank from an unconnected Department			—Member		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Beldar	152* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Rs. 5200—Non-Gazetted, Non-Ministerial (Non-Industrial)	Pay Band-1, Rs. 20200 with grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 40 years for departmental candidates in accordance with the orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
(7)			(8)		
1. Matric pass from a recognised Board. 2. Proficiency in trade work			Not applicable		
(10)			(11)		
By absorption, failing which by direct recruitment			Absorption- Persons serving in similar grade in lower formations of Defence Services.		

(12)	(13)
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—	Not applicable.
(1) Major General, Officer-in-Charge, Remount Veterinary Corps Records, Meerut Cantonment	—Chairman
(2) An officer of the rank of Colonel from Directorate General Remount Veterinary Services	—Member
(3) An officer of the rank of Lt. Colonel or Major or Captain or equivalent rank from an unconnected Department	—Member

[F. No. 80270/Q/RV-1(Non-Industrial)/RR/141/D(Apptts)/2015]

DALPAT SINGH, Under Secy.